



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अगस्त 15—अगस्त 21, 2004, शनिवार/श्रावण 24—श्रावण 30, 1926
No. 17] NEW DELHI, AUGUST 15—AUGUST 21, 2004, SATURDAY/SRAVANA 24—SRAVANA 30, 1926

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 9 अगस्त, 2004

का.नि.आ. 118.—राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम, 1948 (1948 का 31) के खण्ड 12 के उपखंड, (1) तथा (1क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा राज्य सभा के सांसद श्री शंकर रॉय चौधरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर का केन्द्रीय सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति अधिसूचित करती है और इस निमित्त भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय सं. का.नि.आ. 76(ई) दिनांक 10 अक्टूबर, 1983 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उपर्युक्त अधिसूचना में, शीर्षक के अंतर्गत

खण्ड 12 के उपखण्ड (1) धारा (1) के अंतर्गत

प्रविष्टि (13) के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी
अर्थात् :—

प्रविष्टि (13) श्री शंकर रॉय चौधरी, सांसद (राज्य सभा)
10 दिसम्बर, 2003 से एक वर्ष के लिए चुने गए।

[सं. पीसी-11(51)/92/डी(जी एस-VI)]

आर.एल. कपूर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 9th August, 2004

S.R.O. 118.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) and (1A) of Section 12 of the National Cadet Corps Act, 1948 (31 of 1948), the Central Government hereby notifies the appointment of Shri Shankar Roy Chowdhury, Member of Parliament (Rajya Sabha) as Member of the Central Advisory Committee for the National Cadet Corps and for that purpose amends the notification of the Government of India in the Ministry of Defence S.R.O. 76(E) dated the 10th October, 1983, as amended from time to time, as follows, namely :—

In the said notification, under the heading “Under clause (i) of Sub-section (1) of Section 12”

for the entry (13), the following entry shall be substituted; namely :—

“(13), Shri Shankar Roy Chowdhury, Member of Parliament (Rajya Sabha) elected with effect from the 10th December, 2003 for one year”.

[No. PC-11(51)/92/D(GS-VD)]

R. L. KAPOOR, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2004

का.नि.आ. 119.— रक्षा संकर्म अधिनियम, 1903 (1903 की 7) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित भूमि पंजाब राज्य में आयुध डिपो दप्पर, जिला पटियाला के निकट होने के कारण इसे भवनों तथा अन्य बाधाओं से मुक्त रखे जाने के उद्देश्य से इसके उपयोग तथा अधिभोग पर उपर्युक्त अधिनियम की धारा 7 के खंड (ग) में इस अधिसूचना को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तारीख से निर्दिष्ट प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है।

2. उपर्युक्त भूमि की योजना से संबंधित रेखाचित्र नक्शे का निरीक्षण उपायुक्त, जिला पटियाला, पंजाब राज्य के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य में रक्षा संकर्म अर्थात् आयुध डिपो, दप्पर पटियाला के बाहरी दीवार के किनारे से 1200 गज की दूरी के भीतर के क्षेत्र में आने वाली समस्त भूमि।

[सं० एम एफ-बी/50542/एल डब्ल्यू (पश्चिम)/
179 से संबंधित पीसी VII]

सहेली घोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 30th July, 2004

S.R.O. 119.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (a) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule below, being land lying in the vicinity of Ammunition Depot Dappar, District Patiala, in the State of Punjab, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions, from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the Office of the Deputy Commissioner, Patiala, in the State of Punjab.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within a distance of 1200 yards (1097.28 meters) from the crest of the outer parapet of the Works of Defence, namely, Ammunition Depot Dappar, District Patiala, in the State of Punjab.

[No. PC VII to MF-B/50542/LW(West)/179]
SAHELI GHOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2004

का.नि.आ. 122.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा मंत्रालय के अधीन तटरक्षक संगठन में तकनीकी सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम तटरक्षक संगठन (समूह 'ख') तकनीकी सहायक भर्ती नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2004

का.नि.आ. 120.— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिम कमान द्वारा कर्नल एस० एस० जामवाल का त्यागपत्र स्वीकार कर लिए जाने के कारण छावनी बोर्ड, अमृतसर में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[फा० सं० 19/06/अमृतसर/सी/डीई/2001/3360/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी० आर० मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 2004

S.R.O. 120.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Amritsar by reasons of acceptance by the General Officer Commanding-in-Chief, Western Command of resignation of Col. S.S.Jamwal.

[F.No. 19/06/Amritsar/C/DE/2001/3360/D(Q & C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2004

का.नि.आ. 121.— छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, अमृतसर ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) के खण्ड (च) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्नल टी० पी० एस० ग्रेवाल को छावनी बोर्ड अमृतसर का सदस्य मनोनीत किया है। यह मनोनयन कर्नल एस० एस० जामवाल के स्थान पर किया गया है। जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है।

[फा० सं० 19/06/अमृतसर/सी/डीई/2001/3360/डी (क्यू एण्ड सी)]

डी० आर० मेहरा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th August, 2004

S.R.O. 121.—In pursuance of Sub-Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies that Col. T.P.S. Grewal has been nominated as a member of the the Cantonment Board Amritsar by the Station Commander, Amritsar in exercise of the powers conferred under clause (e) of Sub-Section (3) of Section 13 of that Act vice Col. S. S. Jamwal whose resignation has been accepted.

[F.No. 19/06/Amritsar/C/DE/2001/3360/D(Q & C)]

D. R. MEHRA, Under Secy.

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**— उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**— उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरहता.**— वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
तकनीकी सहायक	01* (2004) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	5500-175- 9000 रु.	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अनधिक टिप्पण 1 : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10
लागू नहीं होता	<p>आवश्यक :</p> <p>(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से पर्यावरण विज्ञान/मीन उद्योग/वनस्पति विज्ञान/जंतु विज्ञान/प्रदूषण नियंत्रण/बायो इन्फोरमेटिक्स में बैचलर डिग्री या समतुल्य;</p> <p>(ख) किसी सरकारी संगठन/अनुसंधान संस्था/विश्वविद्यालय से पर्यावरण/प्रदूषण नियंत्रण में एक वर्ष का अनुभव।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भवना नहीं है।</p>	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।
भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा		
11	12		
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है), जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	<p>प्रतिनियुक्ति (आई.एस.टी.सी.)</p> <p>केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाएं/पब्लिक सेक्टर के उपक्रमां/अर्द्धसरकारी/कानूनी या स्वायत्त संगठनों के ऐसे अधिकारी :—</p>		
टिप्पण : सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाएगी।	(क) (i) जो मूल काडर/विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या		

(ii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 5000—8000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है ; या

(iii) जिन्होंने मूल काडर/विभाग में 4500—7000 रुपए या समतुल्य वेतनमान में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में छह वर्ष सेवा की है ; और

(ख) जिनके पास स्तंभ 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

टिप्पण :—प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

समूह "ख" विभागीय प्रोन्नति समिति (सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों की पुष्टि के संबंध में) :—

1. उप महानिदेशक, तटरक्षक मुख्यालय
2. निदेशक, उप सचिव (नौसेना-II), रक्षा मंत्रालय
3. निदेशक (कार्मिक), तटरक्षक मुख्यालय

—अध्यक्ष
—सदस्य
—सदस्य

किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करते समय और इन भर्ती नियमों के किसी उपबंध को संशोधित/शिथिल करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा.सं. सी.पी./0415/टी. ए./1005/यू.एस. (पी.)डी. (ने-II)]

जी.एस. औधखासी, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd July, 2004

S.R.O. 122.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Technical Assistants in Coast Guard Organisation under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement.—(i) These rules may be called the Coast Guard Organisation (Group "B") Technical Assistant Recruitment Rules, 2004.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Scale of Pay	Whether Selection or Non-selection posts	Age limit for direct recruitment
1	2	3	4	5	6
Technical Assistant	1* (2004) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 5500-175-9000	Not applicable	Not exceeding 30 years. Note 1 :— Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. Note 2 :— The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Educational and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
7	8	9	10		
Not applicable	Essential : (a) Bachelor's degree in Environmental Science/Fisheries/Botany/Zoology/ Pollution Control/Bio-informatics or equivalent from a recognised university or equivalent;		Not applicable		Two years for direct recruits

8

- (b) One year's experience in any Government organisation/Research Institution/University in Environment/Pollution Control.

Note : (i) Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Competent Authority in case of candidates otherwise well qualified.

(ii) The qualification regarding experience is/are relaxable at the discretion of the SSC/Competent Authority in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes. If at any stage of selection the SSC/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of posts to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

11

12

Deputation (including short term contract) failing which by direct recruitment.

Note : Direct recruitment by Staff Selection Commission.

Deputation (ISTC) :—

Officers of the Central/State Government/UTs/Universities/Recognised Research Institutions/PSUs/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations :

(a) (i) Holding analogous post on Regular basis in the parent Cadre/Depts; or
(ii) With three years service in grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay scale of Rs. 5000—8000 or equivalent in the parent Cadre/Department; or

(iii) With six years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the pay scale of Rs. 4500—7000 or equivalent in the parent Cadre/Department; and

(b) Possessing the educational qualifications and experience as prescribed for direct recruits mentioned under Col. 8.

Note : Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
13	14
<p>Group "B" Departmental Promotion Committee (for confirmation of direct recruits) :—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deputy Director General, Coast Guard Headquarters —Chairman 2. Director/Deputy Secretary, (Navy-II) Ministry of Defence —Member 3. Director (Personnel) Coast Guard Headquarters —Member 	<p>Consultation with Union Public Service Commission necessary while appointing an officer on deputation (ISTC) and for amendment/relaxation of any provision of these RRs.</p>

[F. No. CP/0415/TA/1005/US (P) D (N-II)]

G.S. AUDHKHASI, Under Secy.